

STERLING TOOLS LIMITED

CIN : L29222DL1979PLC009668

WORKS : 5-A DLF Industrial Estate
Faridabad - 121 003 Haryana India
Tel : 91-129-227 0621 to 25/225 5551 to 53
Fax : 91-129-227 7359
E-mail : sterling@stlfasteners.com
website : stlfasteners.com



<u>By NEAPS</u>	<u>By Listing Centre</u>
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400051	General Manager BSE Limited 1 st Floor, P. J. Towers Dalal Street Mumbai - 400001
Security Code No.: STERTOOLS	Security Code No.: 530759

Date: 03rd August 2023**Sub: Newspaper Publication of Financial Results for Quarter ending on 30th June, 2023**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Please find enclosed copies of Extracts of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results for Quarter ended on 30th June, 2023 published in English and Regional (Hindi) newspaper on 03rd August, 2023 for your information and records.

Sincerely,
For **STERLING TOOLS LIMITED**


Abhishek Chawla
Company Secretary & Compliance Officer
M. No: A-34399



REGD. OFFICE : 515, DLF Tower-A,
Jasola District Centre, New Delhi - 110025
Email : csec@stlfasteners.com

Adani Wilmar loss at ₹78 cr

FE BUREAU
Mumbai, August 2

EDIBLE OIL MAJOR Adani Wilmar on Wednesday reported a consolidated net loss of ₹78 crore in the June quarter of the current fiscal (Q1FY24) due to lower income amid a fall in prices of cooking oils. The company had posed a net profit of ₹186 crore in the year-ago period.

Revenue fell 12% to ₹12,928 crore during the April-June period from ₹14,724 crore in the corresponding period last year, the company said.

Adani Wilmar, which is a 50:50 JV between the Adani group and Singapore-based Wilmar, sells edible oils and

FALLING EDIBLE OIL PRICES TAKE A TOLL

₹ crore	Q1 FY24	Q1 FY23	% change
Revenue	12,928	14,724	-12.2
Ebitda	130	443	-70.7
Ebitda margin (%)	1.0	3.0	-
Net profit/loss	-78	186	-

Source: Company

other food items under the Fortune brand.

In volume terms, the company achieved 25% growth to 14.9 lakh tonnes in Q1 from 11.9 lakh tonnes reported last year. "Our margins during the quarter got impacted by high-cost inventory in a falling edible oil price environment and dis-aligned hedges compared

to spot prices of the physical commodity," Angshu Mallick, MD & CEO of Adani Wilmar, said. To capture the opportunity in value-added blended oils, Mallick said the company was investing in the category under its Xpert brand.

Mallick also said that the company was gaining share from regional brands.

Carmaker BYD faces tax probe: Sources

NIKUNJ OHRI & ADITI SHAH
New Delhi, August 2

CHINESE AUTOMAKER BYD faces an ongoing Indian investigation over allegations that it paid too little tax on imported parts for cars it assembles and sells in the country, two sources with direct knowledge of the matter said.

India's Directorate of Revenue Intelligence (DRI) has alleged that China's largest electric vehicle (EV) maker, whose expansion plans have been hit by fractious relations between New Delhi and Beijing, underpaid tax of ₹730 million (\$9 million), one of the sources said.

Although BYD has deposited this sum after the DRI's preliminary findings, the source added, the investigation is ongoing and could lead to additional tax charges and penalties. The DRI is yet to issue a final notice to BYD, which can challenge the findings.

BYD in India and China did not reply to several requests seeking comment.

India's finance ministry did not reply to an email and WhatsApp message seeking comment.

BYD is facing heightened

UNDER THE LENS

India's Directorate of Revenue Intelligence (DRI) has alleged that the EV maker underpaid tax of ₹730 mn (\$9 mn)

Although BYD has deposited this sum, the probe may lead to additional penalties

BYD is facing scrutiny over a \$1 billion proposal to build cars locally



scrutiny from New Delhi over a \$1 billion proposal to build cars locally, amid tighter rules on foreign investment from bordering nations, including China. BYD told its Indian joint venture partner it had considered dropping the investment plans.

Companies from China have come under the spotlight in India since 2020 when border clashes broke out between the neighbours.

Smartphone maker

Xiaomi Corp has been accused of illegal remittances to foreign entities in the name of royalties, allegations it has denied and challenged in court.

India taxes imports of fully built electric cars at 70% or 100% based on the value of the vehicle, but levies 15% or 35% on imports of car parts that are then assembled locally into an EV.

Those lower rates, however, are only applicable when parts such as a battery pack or motor are imported, without being mounted on a vehicle chassis.

One of the sources said BYD had not met these conditions, making it liable to pay either 70% or 100% depending on the value of the car.

Neither the time period over which the alleged violation took place nor the number of cars affected was immediately clear.

BYD, which has already invested more than \$200 million in India, markets the Atto 3 electric SUV and the e6 EV to corporate fleets and plans to launch its Seal electric sedan later this year.

It has sold about 1,960 cars in India since starting sales in 2022, government registration data shows.

Vi loses market share in all 22 circles; Jio gains

JATIN GROVER
New Delhi, August 2

AS THE PACE of subscriber churn increased for Vodafone Idea in April and May, the spillover of it is reflected in the market share that the company has been losing for 26 consecutive months now, according to data by the Telecom Regulatory Authority of India (Trai).

In the month of May, Vodafone Idea lost its market share in all 22 circles to peers Reliance Jio and Bharti Airtel. Till some time back, the company was able to maintain its market share in a few circles of Himachal Pradesh, UP (West), UP (East), North East and Madhya Pradesh.

However, even those have started seeing weakness now. Two years ago in April 2021, Vodafone Idea had a market share of nearly 24%, which reduced to 20% at the end of May.

The reason for it can be attributed to weak capital expenditure, especially on the network, delay in the launch of 5G services, shift of lower-end subscribers to other operators, lucrative offerings by the competition in some segments, according to analysts.

In the past 26 months as of May-end, Vodafone Idea has lost nearly 53 million mobile subscribers, taking its subscriber base to 230.94 million.

"Vodafone Idea lost market share in all 22 circles with big losses in Mumbai, West Bengal, Maharashtra, UP (East), Punjab and Kolkata," brokerage house Kotak Institutional Equities said, adding that the market share gains for Bharti Airtel and Reliance Jio came at Vodafone Idea's expense, especially among premium subscribers driven by their pan-India 5G rollouts and Vodafone Idea's cash constraints and long-delayed fundraise.

Currently, Vodafone Idea has over 30% market share in four circles—Kerala, Delhi,



Dwindling User Base

In April 2021, Vodafone Idea had a market share of nearly 24%, which reduced to 20%.

Vodafone Idea lost nearly 53 million subscribers, taking its user base to 230.94 million

Gujarat, and Mumbai. The operator leads only in Kerala circle among with a 33.8% market share.

Brokerage house Morgan Stanley said, "Net subscriber additions for Reliance Jio in May were broad-based across rural and urban as well as across circles while they were largely concentrated in circle A/B for Bharti Airtel and market-share loss acceleration for Vodafone Idea was seen in Metros during the month."

Reliance Jio which had a market share of 36% two years ago, has seen an increase in its share to 38.2% at the end of May. Similarly, Bharti Airtel's market share rose to 32.6% from 29.8% two years back.

In May, Bharti Airtel gained the market share in 18 of 22 circles with large gains in Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal and Rajasthan. On the other hand, Reliance Jio gained market share in all 22 circles, with big gains in Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh (West), Tamil Nadu, Kolkata, Haryana and Punjab, according to Kotak Institutional Equities.

Ex-Infy exec to join Canada firm as CEO

SAMEER RANJAN BAKSHI
Bengaluru, August 2

CANADA-BASED CAAS (Communication as a service) provider Sangoma Technologies Corporation announced the appointment of Charles Salameh, former senior vice president of Infosys, as the company's new CEO and member of the board of directors, effective September 1.

Charles previously has held senior leadership positions at Bell Canada, Nortel

Networks, HP and DXC. His most recent role was at Infosys where as global head of account expansion he was responsible for driving growth and expansion across Infosys business, said the company in a filing with US Securities and Exchange Commission.

Charles joined a string of senior employees who left Tier 1 Indian IT companies to become either CEO of global IT companies or CEO of smaller Indian rivals.

JSW's CRGO project to cost ₹5,500 cr

JSW STEEL'S PLANS to make cold rolled grain oriented electrical steel (CRGO) products in India will entail an investment of about ₹5,500 crore, which will be financed through a mix of debt and equity. In May this year, the company had entered into an agreement with Japan's JFE Steel to set up a joint venture company.

FE BUREAU

Vedanta promoter to sell stake worth \$500 mn

ENS ECONOMIC BUREAU
Mumbai, August 2

VEDANTA GROUP PROMOTER Twin Star Holding is planning to sell a 4.3% stake in Vedanta Ltd to raise up to \$501 million (₹4,136 crore) for debt repayment.

The shares will be sold at a 5 per cent discount to Vedanta's closing price of ₹272 per share. As of Wednesday, the promoters currently own a 68.11 per cent stake in the company, which has a market capitalisation of ₹1.01 lakh crore.

Vedanta, a subsidiary of



Vedanta to invest \$1.7 billion for capex in FY24

London-headquartered Vedanta Resources (VRL), has committed to invest \$1.7 billion for capital expenditure in FY24. "We have already invested \$1.2 billion in the

form of growth capex in FY23 to augment our assets and production. We envisage committing another \$1.7 billion in FY24 towards growth projects," Vedanta chairman Anil

Agarwal said in the company's annual report for FY23.

Agarwal had recently announced that the company has 'lined up partners' to produce semiconductors and display glass in India. In a tweet recently, Agarwal said, "We are 100 per cent committed to produce semiconductors and display glass in India and have lined up partners for the same."

Foxconn announced withdrawal from its JV with Vedanta to set up a \$19.5-billion fab plant to manufacture 28 nm and 40 nm chips at Dholera, Gujarat.

Agarwal said that VRL, the holding company of Vedanta, has leveraged \$2 billion during the year against its commitment of \$4 billion deleveraging over three years.

"We have an impeccable track record of honouring all capital market commitments," he said. Vedanta reported a 40% decline in the net consolidated profits from ₹5,592 crore in June 2022 quarter to ₹3,308 crore in the June 2023 quarter. The revenue of the company also witnessed a dip of 13% from ₹38,251 crore during Q1FY23 to ₹33,242 crore during Q1FY24.

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED
Registered Office: 4, Bankshall Street, Kolkata - 700001, India
Tel: (033) 2243 5401 / Fax: (033) 2230 4170
E-Mail: company.secretariat@tatatplate.com • Website: www.tatatplate.com
CIN: L28112WB1920PLC003606

PUBLIC NOTICE – 104TH ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 104th Annual General Meeting ("AGM"/Meeting) of the Members of The Tinplate Company of India Limited ("the Company") will be held on Monday, August 28, 2023 at 3:00 p.m. (IST), through Video Conference ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. The VC/OAVM facility is provided by the National Securities Depository Limited ("NSDL"). This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with notifications and General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars"). Further, SEBI vide its Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 ("Annual Report") of the Company will be available on the website of the Company at www.tatatplate.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of AGM along with the Annual Report will also be available on the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility ONLY. The detailed instructions with respect to such participation will be provided in the Notice convening the Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Companies Act, 2013. The Members may also view the live webcast of the Meeting provided by NSDL at www.evoting.nsdl.com

The Notice of the AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrars & Transfer Agent ("RTA")/Depository Participants ("DPs")/Depositories. The Company shall send a physical copy of the AGM Notice and Annual Report to those members who request for the same at company.secretariat@tatatplate.com or csa-annualreports@tcplindia.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

Members who have not registered their e-mail addresses with the Company/RTA are requested to follow the process mentioned below and register their e-mail addresses not later than 5:00 p.m. (IST) on Monday, August 21, 2023, so as to receive electronically (a) the Notice of AGM and Annual Report; and (b) login ID and password for remote e-Voting.

Process for registering e-mail address

- Visit the link: https://tcplinkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html
- Select the name of the Company "The Tinplate Company of India Limited" from the drop-down list
- Enter details in respective fields such as DPID and Client ID (if shares held in electronic form)/Folio no. and Certificate no. (if shares held in physical form), Shareholder name, PAN, mobile number and e-mail id
- System will send OTP on mobile no. and e-mail ID
- Enter OTP received on mobile no. and e-mail ID and submit

For permanent registration of e-mail address, Members holding shares in demat form, are requested to update the same with their DPs. Members holding shares in physical form, are requested to visit <https://tcplindia.co.in/client-downloads.html> to know more about the registration process.

Voting Information

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as may be set forth in the Notice of the AGM through e-voting system of NSDL.

The remote e-voting details are:

Remote e-Voting start date and time	Thursday, August 24, 2023 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-Voting end date and time	Sunday, August 27, 2023 at 5:00 p.m. (IST)

Detailed instructions pertaining to (a) Remote e-Voting before the AGM, (b) e-Voting during the AGM and (c) attending the AGM through VC/OAVM will be provided in "Notes" section to the Notice of the AGM.

Book Closure and Dividend

Members may note that the Board of Directors of the Company at its meeting held on April 27, 2023 has recommended a dividend of Rs.3.00 per Equity Share of face value ₹ 10/- each. The dividend, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, on and from September 1, 2023. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Saturday, August 12, 2023 to Monday, August 21, 2023 (both days inclusive) for the purpose of this AGM and for determining the entitlement of members to the dividend.

Process for updating bank account details to receive dividend

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions:

- Members holding shares in physical form
Members are requested to send hard copies of the following details / documents to the Company's RTA, viz. TSR Consultants Private Limited at C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, so as to be received not later than Friday, August 11, 2023:
 - Form ISR-1 duly filled and signed by the holders stating their names, folio no., complete address with PIN code, and the following details relating to the bank account in which the dividend is to be received:
 - Name of bank and bank branch
 - Bank account number
 - Eleven digit IFSC code
 - Nine digit MICR code
 - The form is available on the website of the Company at <https://www.tatatplate.com/investor/kyc-other-forms> and on the website of the RTA at <https://www.tcplindia.co.in/kyc-download.html>
- Original copy of cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly. In case, name of the holder is not available on the cheque, kindly submit the following documents:
 - Cancelled cheque in original
 - Bank attested legible copy of the first page of the Bank Passbook/Bank Statement bearing the names of the account holders, address, same bank account number and type as on the cheque leaf and full address of the bank branch
- Self-attested copy of the PAN Card of all the holders; and
- Self-attested copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the first holder as registered with the Company.

Further, Members are requested to refer to process detailed on <https://www.tcplindia.co.in/kyc-download.html> and proceed accordingly.

- Members holding shares in demat form
Members may please note that their bank details as furnished by the respective DPs to the Company will be considered for remittance of dividend as per the applicable regulations of the DPs and the Company will not be able to accede to any direct request from such Members for change/addition/deletion in such bank details. Accordingly, the Members holding shares in demat form are requested to ensure that their Electronic Bank Mandate is updated with their respective DPs by Friday, August 11, 2023.
Members are requested to note that the dividend will be paid electronically to the Members who have updated their complete bank account details. The Company will dispatch the dividend warrant/Banker's cheque /demand draft to those Members who are unable to receive the dividend directly in their bank account through Electronic Clearing Service or any other means, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate.

Tax on Dividend

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Members at prescribed rates. To enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN, Category with their DPs or in case shares are held in physical form with the Company/RTA by sending documents through email on or before Thursday, August 10, 2023. The detailed process of the same is available on the website of the Company at <https://www.tatatplate.com/content/pdf/investor/stock-exchange-compliances/ldr-01082023.pdf>

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

The Tinplate Company of India Limited
Sd/
Kaushik Seal
Company Secretary
Membership No. ACS: 21647

Dated: August 2, 2023
Place: Kolkata

A TATA Enterprise

STERLING TOOLS LIMITED
Registered Office : UNIT NO. 515, DLF TOWER A, JASOLA DISTRICT CENTER, NEW DELHI - 110025
CIN: L29222DL1979PLC009668, Website: www.stifasteners.com
Ph: 0129-2270621-25, Email Id.: csec@stifasteners.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023
(₹ in Lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		UNAUDITED RESULTS			AUDITED RESULTS	UNAUDITED RESULTS			AUDITED RESULTS
		3 Months Ended			Year Ended	3 Months Ended			Year Ended
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	
1	Total Income from Operations	14,863.93	15,869.91	13,833.73	60,353.83	22,282.30	21,266.70	17,462.52	77,487.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,111.73	1,144.12	1,202.36	5,327.65	1,714.66	1,327.65	1,293.01	5,988.32
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,091.34	814.89	1,202.36	5,671.91	1,694.27	998.42	1,293.01	6,332.58
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	809.31	526.10	885.34	4,142.95	1,306.77	777.86	958.02	4,787.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	809.10	580.78	883.89	4,193.28	1,306.77	830.71	956.57	4,838.95
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet for the Previous Year				39,424.50				39,322.26
8	Earnings Per Share (Rs. 2/- each)- (for continuing and discontinued operations) Basic and Diluted	2.25	1.46	2.46	11.50	3.63	2.16	2.66	13.29

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the Financial Results of the company is available on the website of BSE Limited (BSE) (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and the Company (www.stifasteners.com).
- The standalone and consolidated results for the quarter ended June 30, 2023 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 02, 2023 and have undergone Limited Review by the Statutory Auditor of the Company.
- Exceptional item of ₹ 20.39 lakhs for the quarter ended 30 June 2023 pertains to estimated interest liability for the quarter recognised by the Company on proposed foreclosure of one authorisation license under Export Promotion Capital Goods ("EPCG") scheme by the Company.

Place: Faridabad
Date: 02 August, 2023

For and on behalf of Board of Directors
STERLING TOOLS LIMITED
Sd/
Anil Aggarwal
Chairman & Managing Director
DIN No.-00027214



आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 72, भूलाल, बस स्टैंड रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001। फोन: +91 9810266747

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पंजीकृत कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 और एमसीए परिपत्रों (जैसा कि नोटों पर परिभाषित है) के अनुसार...

प्रत्येक सदस्य का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को कंपनी की वेब-पेज अथवा ईमेल से उल्लेखित है...

निदेशक मंडल ने पोस्टल बिलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिक्रिया कंपनी सचिव सुशील चेतना भोला को संबोधित किया है...

कंपनी के सदस्यों को भी सूचित किया जाता है और उनसे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि:

- (क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिनांक 29 जुलाई, 2023 के नोटिस में दिए गए हैं।
(ख) एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ग) सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की भुगतान की गई इन्विट्री शेयर पुंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
(घ) एमसीए परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बिलेट नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण, रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों और गैर-पंजीकृत सदस्यों के लिए पोस्टल बिलेट नोटिस और 'रिमोट ई-वोटिंग' की प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए ईमेल पंजीकरण की प्रक्रिया, लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की वेबसाइट, https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है।
(ङ) एमसीए परिपत्रों के अलावा, जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें ई-वोटिंग नोटिस नहीं दिया जा सका है, वे अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत करवा सकते हैं।
(च) यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ और भौतिक होल्डिंग्स के संबंध में कंपनी के आर्टीएल, लिंक इनटाइम (पी) लिमिटेड के साथ उचित प्रक्रिया का पालन करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें।
(ज) एमसीए परिपत्रों के अनुसार, वोटिंग केवल रिमोट ई-वोटिंग द्वारा ही की जा सकती है।
(झ) पोस्टल बिलेट नोटिस को कोई हाउस कॉपी सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को केवल 'रिमोट ई-वोटिंग' प्रणाली के माध्यम से अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करनी होगी।
(ञ) जिन शेयरधारकों को लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वे enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लिंक इनटाइम इन्टरवॉट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
(ञ) पोस्टल बिलेट के परिणाम मंगलवार, 05 सितंबर, 2023 को या उससे पहले, यानी रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के समापन के अधिकतम दो (02) कार्य दिवसों के बाद घोषित किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से, आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड के लिए साक्षी गोयल कंपनी सचिव एवं अनुपाल अधिकारी

दिनांक: 02.08.2023 स्थान: नई दिल्ली

Table with 5 columns: क्र.सं., उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और गारंटर का नाम व पता, संपत्तियों का विवरण, नोटिस की तिथि, बकाया राशि. Contains details for three different loan agreements.

नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और गारंटर (जहां लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है...

स्थान नई दिल्ली, दिनांक 02.08.2023 प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक होम फायनेंस लिमिटेड



EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023. Table with 5 columns: Particulars, Current 3 months ended, Preceding 3 months ended, Corresponding 3 months ended, Year to date figures for previous year ended.

For GOODYEAR INDIA LIMITED Sandeep Mahajan Chairman and Managing Director

IN THE COURT OF SH. DINESH BHATT, DISTRICT JUDGE (Commercial Court-01) WEST, ROOM No.201, 2nd Floor, EXTENSION BLOCK, TIS HAZARI, COURTS DELHI (INDIA) SUMMON FOR PUBLICATION PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 09, सामुदायिक केंद्र, बस स्टैंड रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110057, फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800

मार्ग नोटिस प्रतिपुत्रित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3 के साथ पंजीकृत वित्तीय संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी, प्रवर्तन निदेशक (एनएचए) के द्वारा...

Table with 5 columns: क्रम, वित्तीय/व्यवसायिक (सी/कायूजी) प्रतिक्रिया का नाम, नोबे की शर्तों का विवरण, मार्ग नोटिस की तिथि, मार्ग नोटिस की तारीख.

वसुली अधिकारी /I/ के कार्यालय से ऋण वसुली अधिकरण, देहरादून

वसुली अधिकारी /I/ के कार्यालय से ऋण वसुली अधिकरण, देहरादून पारस टावर, दूसरी मंजिल, माण्डवी, निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

STERLING TOOLS LIMITED Registered Office: UNIT NO. 515, DLF TOWER A, JASOLA DISTRICT CENTER, NEW DELHI - 110025. EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023

फॉर्म ए सार्वजनिक घोषणा (पारदर्शिता और रोशन व्यवस्था 2018 के प्रावधानों के लिए विस्तार प्राप्त अधिनियम) नियम, 2018 के नियम 6 के अंतर्गत ऋण ऑटोनॉमिटीय प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के व्याख्यात्मक हेतु

COURT NOTICE In The Court Of Ms. Harpreet Kaur Nafra Sub Divisional Judicial Magistrate, Sardulgarh Sajan Singh Vs. Kamal Singh

COURT NOTICE In The Court Of Ms. Harpreet Kaur Nafra Sub Divisional Judicial Magistrate, Sardulgarh Sajan Singh Vs. Kamal Singh